

**श्री वी. सत्य वेंकटा राव ने सिडबी के नए उप प्रबंध निदेशक के तौर पर प्रभार
गृहण किया**

**Shri V. Satya Venkata Rao takes over as new Deputy Managing Director of
SIDBI**



श्री वी. सत्य वेंकटा राव ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के नए उप प्रबंध निदेशक के तौर पर प्रभार गृहण का लिया है। सिडबी; सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमईएस) के संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकास में संलग्न एक प्रमुख वित्तीय संस्था है।

Shri V. Satya Venkata Rao has taken over as the new Deputy Managing Director of Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the principal financial institution engaged in the promotion, financing and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

श्री राव को भारत के दो वित्तीय संस्थानों अर्थात् आईएफसीआई और हुडको में 29 से अधिक वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है। उन्होंने कानूनी, मानव संसाधन, कॉर्पोरेट संचार जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाला है और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम किया है। श्री राव ने सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडलों में नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने

वेंचर कैपिटल कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत सोसाइटीज़ के निदेशक मंडलों में बतौर निदेशक भी काम किया है।

Shri Rao has more than 29 years of experience in two all India financial institutions namely, IFCI and HUDCO. He has handled several critical matters in areas such as legal, human resource, corporate communications and worked as Central Public Information Officer and Appellate Authority under the Right to Information Act. Shri Rao has functioned as a nominee director on the Boards of listed and non-listed companies. He has also served as a director on the Boards of venture capital company, real estate company and societies registered under the Societies Registration Act.

सिडबी के बारे में: 1990 में अपने गठन के बाद से सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ऋण और विकासात्मक उपायों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) के जीवन को छुआ है, चाहे ये पारंपरिक व घरेलू छोटे उद्यमी हों; उद्यमिता पिरामिड के निम्नतम स्तर के उद्यमी हों अथवा उच्चतम स्तर के ज्ञान-आधारित उद्यमी हों।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट <https://www.sidbi.in> पर जाएँ।

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements.

To know more, check out: <https://www.sidbi.in>

मीडिया संपर्क: नीलाश्री बर्मन, मोबाइल: +91 8879760249, ई मेल: neelasrib@sidbi.in

Media contact: Neelasri Barman, Mobile: +91 8879760249, E-mail: neelasrib@sidbi.in